



राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022- 2023

प्रलिस के ललल:

[भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधकरण, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक](#)

मेन्स के ललल:

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधकरण, खाद्य एवं पोषण असुरक्षा- संरचनात्मक असमानताओं का परणाम

[स्रोत: इंडयलन एक्सप्रेस](#)

चर्चा में क्यों?

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधकरण (FSSAI) द्वारा जारी [राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक \(SFSI\) 2022-2023](#) खाद्य सुरक्षा सुनश्चित करने में भारतीय राज्यों के प्रदर्शन पर प्रकाश डालता है ।

- वर्ष 2022- 2023 सूचकांक ने एक नया पैरामीटर, 'SFSI रैंक में सुधार' पेश कया, जो वगत वर्ष से तुलना कर राज्य की प्रगत का आकलन करता है । इस परवर्तन को समायोजत करने के ललल अन्य मापदंडों के भार को संशोधत कया गया ।

राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक (SFSI):

- यह एक वार्षक मूल्यांकन है जो खाद्य सुरक्षा पर राज्यों और केंद्र शासत प्रदेशों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है ।
- सूचकांक एक गतशील बेंचमार्कग दृष्टकोण है जो सभी राज्यों और क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा का आकलन करने हेतु एक नष्पक्ष रूपरेखा प्रदान करने के ललल मात्वात्मक एवं गुणात्मक वशिलेषण को जोड़ता है ।
- देश में खाद्य सुरक्षा पारस्थतलकी तंत्र में परतसिपर्द्धी और सकारात्मक बदलाव लाने के ललल SFSI की शुरुआत वर्ष 2018-19 में की गई थी ।

सूचकांक के प्रमुख नष्कर्ष:

- राज्य खाद्य सुरक्षा स्कोर में सामान्य गरलवट:
 - पछिले पाँच वर्षों में महाराष्ट्र, बहलर, गुजरात और आंध्र प्रदेश सहत 20 बड़े भारतीय राज्यों में से 19 ने वर्ष 2019 की तुलना में अपने 2022-2023 के SFSI स्कोर में गरलवट का अनुभव कया है ।

STATES WITH STEEPEST INDEX FALL

State	2019	2023
Maharashtra	74	45
Bihar	46	20.5
Gujarat	73	48.5
Andhra Pradesh	47	24
Chhattisgarh	46	27

Source: SFSI reports; all scores out of 100

SAFETY MEASURE

Parameter	Weight
Compliance	28
Consumer Empowerment	19
Human Resources and Institutional Data	18
Food Testing Infrastructure	17
Improvement in SFSI Rank (added in 2023)	10
Training and Capacity Building	8
TOTAL	100

2023 के सूचकांक मापदंड समायोजन का प्रभाव:

- सत्र 2022- 2023 के सूचकांक में पेश किये गए एक नए मापदंड के समायोजन के बाद 20 में से 15 राज्यों ने वर्ष 2019 की तुलना में 2022-2023 में कम SFSI स्कोर अर्जित किये।

राज्यों की उनकी संबंधित श्रेणियों में समग्र रैंकिंग:

Category- Union Territories	
Name	Rank
Jammu & Kashmir	1
Delhi	2
Chandigarh	3

Category- Small States	
Small State	Rank
Goa	1
Manipur	2
Sikkim	3

Category- Large States	
Large State	Rank
Kerala	1
Punjab	2
Tamil Nadu	3

खाद्य परीक्षण अवसंरचना' में गतिवट:

- 'खाद्य परीक्षण अवसंरचना' पैरामीटर खाद्य नमूनों के परीक्षण के लिये प्रत्येक राज्य में प्रशिक्षित कर्मियों के साथ पर्याप्त परीक्षण बुनियादी ढाँचे की उपलब्धता को मापता है।
- इस पैरामीटर में **सबसे बड़ी गतिवट देखी गई**, सभी बड़े राज्यों का औसत स्कोर वर्ष 2019 में 20 में से 13 से गिरकर वर्ष 2022 - 2023 में 17 में से 7 रह गया।
 - वर्ष 2022-2023 में इस पैरामीटर में गुजरात और केरल का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा जबकि आंध्र प्रदेश का प्रदर्शन सबसे खराब रहा।

- **अनुपालन स्कोर में कमी:**
 - यह पैरामीटर प्रत्येक राज्य के खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण द्वारा किये गए खाद्य व्यवसायों के लाइसेंस और पंजीकरण, किये गए नरीकरण, आयोजित विशेष अभियानों, शिविरों व ऐसे अन्य अनुपालन-संबंधित कार्यों को मापता है।
 - इसके साथ ही 'अनुपालन' पैरामीटर के स्कोर में भी गिरावट दर्ज की गई।
 - इस पैरामीटर में पंजाब और हिमाचल प्रदेश को सबसे अधिक अंक प्राप्त हुए और झारखंड को सबसे कम अंक प्राप्त हुए।
 - सभी बड़े राज्यों के लिये वर्ष 2022-2023 का औसत अनुपालन स्कोर 28 में से 11 रहा, जबकि वर्ष 2019 में यह 30 में से 16 था।
- **विविध उपभोक्ता सशक्तीकरण:**
 - 'उपभोक्ता सशक्तीकरण' पैरामीटर, FSSAI की विभिन्न उपभोक्ता सशक्तीकरण पहलों में राज्य के प्रदर्शन को मापता है, जिसमें **फूड फोरटफिकेशन**, **ईट राइट कैम्पस**, **भोग (भगवान को चढ़ावा)**, **रेस्तरां की स्वच्छता रेटिंग** और **स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब** में साझेदारी शामिल है।
 - केरल और मध्य प्रदेश के बाद तमिलनाडु शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरा।
 - कुल मिलाकर वर्ष 2022-2023 में औसत स्कोर 19 में से 8 अंक है, जबकि वर्ष 2019 में यह 20 में से 7.6 अंक था।
- **मानव संसाधन और संस्थागत डेटा स्कोर में गिरावट:**
 - 'मानव संसाधन और संस्थागत डेटा' पैरामीटर प्रत्येक राज्य में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों, अन्य नामित अधिकारियों की संख्या और नरिणय तथा अपीलीय न्यायाधिकरणों की सुविधा सहित मानव संसाधनों की उपलब्धता को मापता है।
 - इस पैरामीटर के लिये औसत स्कोर वर्ष 2019 में 20 में से 11 अंक से गरिकर 2022-2023 में 18 में से 7 अंक हो गया।
 - यहाँ तक कि वर्ष 2019 में तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश जैसे शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों को भी वर्ष 2022-2023 में कम अंक मिले।
- **'प्रशिक्षण एवं क्षमता नरिमाण' में सुधार:**
 - औसत स्कोर वर्ष 2019 में 10 में से 3.5 से बढ़कर वर्ष 2022-2023 में 8 में से 5 हो गया।
- **SFSI रैंक में सुधार:**
 - नए पैरामीटर 'SFSI की रैंक' में केवल पंजाब में ही उल्लेखनीय सुधार हुआ है।
 - SFSI रैंक पैरामीटर में सुधार, जिसका वर्ष 2022-2023 में 10% वेटेज था, में 20 बड़े राज्यों में से 14 राज्यों को 0 अंक प्राप्त हुए।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/state-food-safety-index-2022-2023>

